

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 27.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01-उप निर्वाचन-2020 के दृष्टीगत कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 07 अभियोग पंजीकृत कर 07 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, 100 लीटर कच्ची शराब व देशी शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर दबिस व चेकिंग करते हुए कुल 07 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 07 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 100 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया एवं लगभग 1500 लीटर लहन नष्ट किया गया। उक्त अभियान अभी जारी है।

05. थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 27.10.2020 को थानाध्यक्ष बरहज के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बनकटिया बरझौली के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.योगेन्द्र यादव पुत्र फेकू यादव सा0 बनकटिया बरझौली थाना बरहज, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 27.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ **थाना-गौरीबाजार मु0अ0सं0 313/2020 धारा-381 भादवि0 01.शैलेन्द्र यादव पुत्र राजाराज यादव सा0 सोडा थाना सिकरीगंज गोरखपुर।**

➔ **थाना-कोतवाली मु0अ0सं0 791/2020 धारा-379,411 भादवि0 01.बदरूनिशा पत्नी मो0 असलम सा0 खोराबार थाना बखिरा संतकबीरनगर।**

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 27.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 27.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांति अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 194 वाहनों से 176900 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

